



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 अग्रहायण 1944 (श10)  
(सं0 पटना 1063) पटना, शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022

सं0 03/नमामि गंगे-06-04/2022-5098/न०वि० एवं आ०वि०  
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

2 दिसम्बर, 2022

**विषय:-**सुपौल नगर परिषद में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन (I&D) एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अनुमानित लागत व्यय कुल 60,14,20,000/- रुपये (साठ करोड़ चौदह लाख बीस हजार रु० मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 57,08,80,000/- रुपये (संतावन करोड़ आठ लाख अस्सी हजार रु० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से देय सेंटेंज की राशि 3,05,40,000/- रुपये (तीन करोड़ पाँच लाख चालीस हजार रु० मात्र) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

सुपौल नगर परिषद सुपौल जिले का महत्वपूर्ण शहर है जो कोशी नदी तट पर अवस्थित है। सुपौल नगर परिषद में कुल 28 वार्ड हैं, जिनकी कुल आबादी 76,009 है। कोशी नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी या इसके सहायक नदियों के किनारे अवस्थित किसी शहर के बिना उपचार किये (Untreated) सिवेज को गंगा नदी/सहायक नदियों में प्रवाहित नहीं किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन (I&D) एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण वर्ष 2050 तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।

2. सुपौल नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि की उपलब्धता के आधार पर इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन (I&D) एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का डी०पी०आर० तैयार कर NMCG, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। एन०एम०सी०जी० के पत्रांक-Pr19014/1/2019 Project Development (Bihar & Jharkhand) Supaul दिनांक 07.09.2022 द्वारा लागत व्यय 57,09,00,000/- रुपये पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है, जिसे सेंटेंज के रूप में 3,05,40,000/- रुपये (तीन करोड़ पाँच लाख चालीस हजार रु० मात्र) देय है। सुपौल इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन (I&D) एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) योजना की अनुमानित लागत 60,14,20,000/- रुपये (साठ करोड़ चौदह लाख बीस हजार रु० मात्र) है।

उक्त परियोजना के Major Components निम्नवत् हैं :-

| Sl. No. | Major Head   | Quantity |
|---------|--|----------|
| 1.      | Development of 3 Nos. Sewage Treatment Plant (Capacity 9 MLD, 2 MLD & 1.1 MLD) | 12.1 MLD |
| 2.      | Nala Tapping   | 6 No.    |
| 3.      | Gravity Sewer Line   | 5747 m   |
| 4.      | Treated effluent disposal line   | 900 m    |
| 5.      | Operation & Maintenance  | 15 years |

इस योजना को 24 महीनों में पूरा किया जाना है। सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के सफल अधिष्ठापन के उपरान्त संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों तक इसका रख-रखाव किया जाना है।

3. यह योजना नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से संपोषित योजना है। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या- एम-4-26/2013/653/वि० पटना, दिनांक-25.01.2016 के अनुरूप सेंटेंज की राशि 3,05,40,000/- रुपये (तीन करोड़ पाँच लाख चालीस हजार रुपये मात्र) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। योजना में कुल राशि 60,14,20,000/- रुपये (साठ करोड़ चौदह लाख बीस हजार रु० मात्र) का व्यय संभावित है।

(i) राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:-

| क्र० सं० | वित्तीय वर्ष | केन्द्रांश (100%) | राज्यांश सेन्टेज राशि (up to 10.00 Cr. - 7% above 10.00 Cr. - 5%) | राशि करोड़ में वित्तीय वर्ष में कुल राशि |
|----------|--------------|-------------------|---|--|
| 1        | 2            | 3                 | 4   | 5  |
| 1        | 2022-2023    | 10.000            | 0.700   | 10.700                                   |
| 2        | 2023-2024    | 22.385            | 1.119   | 23.505                                   |
| 3        | 2024-2025    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 4        | 2025-2026    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 5        | 2026-2027    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 6        | 2027-2028    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 7        | 2028-2029    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 8        | 2029-2030    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 9        | 2030-2031    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 10       | 2031-2032    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 11       | 2032-2033    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 12       | 2033-2034    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 13       | 2034-2035    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 14       | 2035-2036    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 15       | 2036-2037    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 16       | 2037-2038    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| 17       | 2038-2039    | 1.64681           | 0.082   | 1.729                                    |
| कुल राशि |              | 57.088            | 3.054   | 60.142                                   |

(ii) ऑपरेशन एण्ड मेंटेनेन्स (O & M)-इस परियोजना का ऑपरेशन एण्ड मेंटेनेन्स 15 वर्षों तक संवेदक द्वारा ही किया जाना है तथा इसका व्यय परियोजना से होगा। परियोजना की समाप्ति अवधि के पश्चात् ऑपरेशन एण्ड मेंटेनेन्स का व्यय राज्य सरकार/नगर परिषद, सुपौल द्वारा वहन किया जायेगा।

4. अतः सुपौल नगर परिषद में इंटरसेप्शन एण्ड ड्राईभर्सन (I&D) एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अनुमानित लागत व्यय कुल 60,14,20,000/- रुपये (साठ करोड़ चौदह लाख बीस हजार रु० मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 57,08,80,000/- रुपये (सत्तावन करोड़ आठ लाख अस्सी हजार रु० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से

देय सेंटेंज की राशि 3,05,40,000/- रुपये (तीन करोड़ पाँच लाख चालीस हजार रु० मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

5. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-29.11.2022 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-23 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,  
सुनील कुमार यादव,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1063-571+200-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>